



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3740]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 20, 2018/भाद्र 29, 1940

No. 3740]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 20, 2018/BHADRA 29, 1940

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2018

**का. आ. 4909(अ).**—दिल्ली विकास प्राधिकरण/केन्द्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा-11(क) के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तिथि से **पैंतालीस (45) दिनों** की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन/संपर्क नं./ई-मेल आई. डी. भी दें, जो पठनीय हो।

संशोधन :

दिल्ली मुख्य योजना-2021	
अध्याय 7.0 उद्योग	
अनुलग्नक-7.0(III) निषिद्ध/नेगेटिव उद्योगों की सूची	
मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
20. ब्रूवरी एवं पोटेबल स्प्रिट	20. ब्रूवरी एवं पोटेबल स्प्रिट (तथापि, 500 लीटर/प्रतिदिन क्षमता तक वाली माइक्रो ब्रूवरीज को किसी रेस्टोरेंट/होटल/क्लब में लगाने की अनुमति स्थल पर अपशिष्ट जल शोधन सुविधा होने और संबंधित अनापत्ति प्रमाण-पत्र/अपेक्षित लाइसेंस के अनुपालन की शर्त पर दी जा सकती है)।

प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला दि.मु.यो.-2021 का पाठ निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों में उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला पाठ दि.वि.प्रा. की वेबसाइट अर्थात् [www.dda.org.in](http://www.dda.org.in) पर भी उपलब्ध है।

[फा. सं. एफ. 3(29)2009/एमपी]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**

(MASTER PLAN SECTION)

**PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 20th September, 2018

**S.O. 4909(E).**—The following modifications which the Delhi Development Authority/Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi-2021, under Section-11(A) of Delhi Development Act, 1957, are hereby published for public information. Any person having any objections/suggestions with respect to the proposed modifications may send the objections/suggestions in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, New Delhi-110023, within a period of **Forty Five (45) days** from the date of issue of this Notice. The person making the objections or suggestions should also give his/her name, address and telephone/contact number(s)/ E-mail ID which should be readable.

**Modification :**

<b>MPD-2021</b>	
<b>Chapter 7.0 Industry</b>	
<b>Annexure-7.0(III) Prohibited/Negative List of Industries</b>	
<b>Existing Provisions</b>	<b>Proposed Modifications</b>
20. Brewery and potable spirits	20. Brewery and potable spirits ( <i>However, microbreweries up to 500L/day capacity may be allowed to be set up at any Restaurant/Hotel/Club subject to installation of on-site waste water treatment facility and adherence/compliance to related NOC/licenses required</i> )

2. The text of MPD-2021 indicating the proposed modifications shall be available for inspection at the Office of the Dy. Director, Master Plan Section, 6<sup>th</sup> Floor, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi-110002, on all working days within the period referred above. The text indicating the proposed modifications is also available on DDA's website i.e. [www.dda.org.in](http://www.dda.org.in).

[F. No. F 3(29)2009/MP]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.